



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार 30 नवम्बर, 2011/9 अग्रहायण, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाएँ एवं विद्युत विभाग

अधिसूचना

शिमला, 21 नवम्बर, 2011

संख्या विद्युत-छ: (5)-61/2010.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा 3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक परिषद है, के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामक मुहाल डिम्फुक, भोगचा, सुरथंग, तेलिंग, तहसील लाहौल, जिला लाहौल स्पति, हिमाचल प्रदेश में 33 के0वी0 सिंगल सर्कट टावर लाईन जो 66 के0वी0 डबल सर्कट टावर पर कोठी से गुफा (शिशु) तक रोहतांग टनल की बिजली आपूर्ति हेतु निर्माण की जानी है, के लिए भूमि अर्जित करनी अपेक्षित हैं। अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी ऐसा हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् लिमिटेड, यूनिट नम्बर-2 मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0 के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
लाहौल-स्पिति	लाहौल	डम्फुक	139/1	0-5-0
			134/1	0-5-0
			162/1	0-5-0
		भोगचा	कित्ता-03	0-15-0
			30/1	0-5-0
			30/2	0-5-0
		सुरथंग	कित्ता-02	0-10-0
			78/1	0-4-2
			कित्ता-01	0-4-2
		तेलिंग	116/1	0-5-0
			114/1	0-5-0
			124/1	0-5-0
			19/1	0-5-0
			16/1	0-5-0
			9/1	0-5-0
		कित्ता-06		1-10-0
		कुल कित्ता-12 कुल		रकबा-2-19-2

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (विद्युत)।

ब अदालत श्री धर्म चन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी भरयाल खुर्द, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री बहादुर सिंह पुत्र श्री ख्याली राम, निवासी भरयाल खुर्द, डाकखाना चढ़ियार, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि उसकी माता श्रीमती गीता देवी की मृत्यु दिनांक 12-1-1986 को महाल भरयाल खुर्द में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएंगे।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर एतराज हो तो वह दिनांक 9-1-2012 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 3-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

धर्म चन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री रमन गरसंगी, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

श्री प्रभु दयाल पुत्र श्री भारत सिंह, निवासी वार्ड नं0 2, भजोगी मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इश्तहार बाबत जन्म तिथि पंजीकरण जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969.

नोटिस बनाम : आम जनता।

श्री प्रभु दयाल पुत्र श्री भारत सिंह, निवासी वार्ड नं0 2, भजोगी मनाली, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अरुण कुमार का जन्म दिनांक 17-9-2008 को हुआ है परन्तु उसकी जन्म तिथि नगर परिषद् मनाली के रिकार्ड में दर्ज नहीं की गई है, जिसे अब दर्ज करवाने के आदेश सादर फरमाए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को अरुण कुमार की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ती हो तो वह दिनांक 23-12-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ती दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर ऐतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 19-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

रमन गरसंगी
कार्यकारी दण्डाधिकारी मनाली,
जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

**In the Court of Shri Balbir Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Shri Vivek Rana s/o Shri Vijay Rana, r/o Akhara Bazar Kullu, Tehsil & District Kullu (H.P.) at present residing c/o Rana Jewellers Manu Market Manali, District Kullu (H. P.) and Smt. Vijayshri Sen d/o Shri Vipin Sen, r/o Ward No. 11 Shastri Nagar Kullu, Tehsil & District Kullu, Himachal Pradesh, at present c/o Rana Jewellers Manu Market Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Vivek Rana s/o Shri Vijay Rana, r/o Akhara Bazar Kullu, Tehsil & District Kullu (H.P.) at present c/o Rana Jewellers Manu Market Manali, District Kullu (H. P.) and Smt. Vijayshri Sen d/o Shri Vipin Sen, r/o Ward No. 11 Shastri Nagar Kullu, Tehsil & District Kullu, Himachal Pradesh, at present c/o Rana Jewellers Manu Market Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 16-11-2011 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the registration of the above marriage can appear in this court on 15-12-2011 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 16th day of November, 2011.

Seal.

BALBIR THAKUR,
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

अज अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० / 11

तारीख मरजुआ

तारीख पेशी : 5-12-2011

श्रीमती कृष्णा देवी विधवा श्री दिवान सिंह, निवासी कस, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश . . वादीगण।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादीगण।

जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन-पत्र।

श्रीमती कृष्णा देवी विधवा श्री दिवान सिंह, निवासी कस, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश ने इस न्यायालय में दावा दायर किया है कि उसकी वास्तविक जन्म तिथि 25-12-1952 है जबकि ग्राम पंचायत कस के परिवार रजिस्टर में केवल 1952 ही दर्ज है। तिथि दर्ज नहीं है, जिसे दर्ज करने के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इश्तहार राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को उक्त मुकद्दमा बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 5-12-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन व वकालतन इस न्यायालय में हाजिर होकर अपने उजर एतराज पेश करे, अन्यथा गैर-हाजरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 8-11-2011 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल बन्सल, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 16/2011, 17/2011

तारीख दायर : 7-6-2011

श्री थोंई पुत्र श्री जटी, निवासी गांव सनारसा, डाकखाना करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादी।

बनाम

1. श्रीमती कृष्णी देवी, 2. श्रीमती कौशल्या देवी पुत्रियां श्रीमती देवी पुत्री श्री मोथू, 3. श्रीमती गंगी पुत्री श्री मोथू निवासीयान गांव बाड़ा, 4. श्रीमती चुड़ा देवी, 5. श्रीमती ज्वाला देवी पुत्रियां श्री रेलू, निवासी गांव गसो, 6. श्री राम आसरे ठाकुर पुत्र श्री दुर्गा सिंह ठाकुर, निवासी करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रतिवादीगण।

दरखास्त तकसीम जेरधारा 123 हि0 प्र0, भू0 रा0 अ0 बाबत अराजी कित्ते 21, रकवा तादादी 01-34-84 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 44/101 ता 113 व अराजी कित्ते 7, रकवा तादादी 00-38-68 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 148/122 ता 127 वाका चक गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री थोंई पुत्र श्री जटी, निवासी गांव सनारसा, डाकखाना करतोट, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने अराजी कित्ते 21, रकवा तादादी 01-34-84 है0 मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 44/101 ता 113 व अराजी कित्ते 7, रकवा तादादी 00-38-68 है0, मुन्दर्जा खाता/खतौनी नं0 148/122 ता 127 वाका चक गसो, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के तकसीम प्रकरण बराए हुकमन तकसीम गुजारे हैं जो इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 7 की तामील बार-बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। इन प्रतिवादीगण की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।

अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 7 को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि व दिनांक 20-12-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 17-11-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

